

## Chapter -13


### एम एस वर्ड 2013 में ऑटो फॉर्मेट फ़ीचर का उपयोग कैसे करें

#### एमएस वर्ड 2013 में ऑटो फॉर्मेट फ़ीचर का उपयोग कैसे करें (How to Use Auto Format Feature In MS Word 2013)

Auto Format MS Word 2013 में एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो आटोमेटिक रूप से टेक्स्ट को अपने आप फॉर्मेट की उपस्थिति को बदलती है। इस सुविधा को Auto Format कहा जाता है उदाहरण के लिए, यदि कोई यूजर “1st” टाइप करता है, तो ऑटोफॉर्मेट इसे “1<sup>ST</sup>” में बदल देगा।

ऑटोफॉर्मेट फीचर टाइप करते समय कुछ मामूली Text formatting को नियंत्रित करता है। इसके लिए –

- सबसे पहले File Tab पर क्लिक करें।
- इसके बाद Word Options Button पर क्लिक करें।
- फिर Proofing tab पर क्लिक करें AutoCorrect Options बटन पर क्लिक करें।
- एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसमें से Auto Format as you type पर क्लिक करें।



- इसमें आपको कई विकल्प दिखाई देंगे अब आप जिस विकल्प को Enable करना चाहते हैं उसके आगे वाले Check box को टिक कर दें और जिन्हें आप Disable करना चाहते हैं उन्हें Untick कर दें।

#### एमएस वर्ड 2013 में ऑटो टेक्स्ट का उपयोग कैसे करें (How to Use Auto Text in MS Word 2013)

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक और फीचर है जिसका नाम है Auto Text। यह आपको अपने डॉक्यूमेंट में आटोमेटिक रूप से पूर्वनिर्धारित टेक्स्ट इन्सर्ट करने की अनुमति देता है, जैसे जैसे आपको कई बार Computer लिखना पड़ता है तो अगर आप चाहते हैं की आप जैसे ही Com लिख कर इंटर करें तो अपने आप ही Computer लिख जाये।

MS Word में कई पूर्वनिर्धारित ऑटोटेक्स्ट हैं। आप इन चरणों का पालन करके उन्हें देख सकते हैं:

- सबसे पहले Insert tab पर क्लिक करें।
- इसके बाद Text section में स्थित, Quick parts पर क्लिक करें।

